

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 333

No. 358]

DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

[N.C.T.D. No. 333

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस—II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

फा. सं. 3/03/एचईएसएमए/2017/गृह पुलिस-II/4862-69.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिए बिजली आपूर्ति एवं वितरण में लगे बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के कर्मचारियों के विरुद्ध गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 27.06.2019 की अधिसूचना सं. 3/03/हेस्मा/2017/गृ.पु.-II/2087-94 के अनुसार हेस्मा लगाया गया था। उक्त अधिसूचना दिनांक 03.01.2020 तक वैध है।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं, कि बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और समीचीन है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं. जी एस आर 526(ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आंदोलन पर दिनांक 04.01.2020 से 03.07.2020 तक और छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डी. एन. सिंह, विशेष सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th December, 2019

F. No. 3/03/HESMA/2017/HP-II/4862-69.—Whereas the *vide* Home Department GNCTD notification No. F. 3/03/HESMA/2017/HP-II/2087-94, dated 27.06.2019 HESMA was imposed against Employees of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL) & Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL), engaged in the supply and distribution of Power, are essential for maintaining Services necessary for the life of people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 03.01.2020.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Electricity Employees & Engineers BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL) & Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL).

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi *vide* Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 526(E), dated 30.07.93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike by Electricity Employees & Engineers (BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL) & Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL), the power service providers in Delhi for another period of six months w.e.f 04.01.2020 up to 03.07.2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
D. N. SINGH, Special Secy. (Home)